



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1939 (श10)
(सं0 पटना 1075) पटना, बुधवार, 15 नवम्बर 2017

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

3 नवम्बर 2017

सं० नि० प्रा०/ नि० 1-06/2017-**1082**—समादेश याचिका संख्या 12921/2017 विजेन्द्रधारी शर्मा -बनाम- राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 31.10.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायादेश पारित किया गया है कि It is held that the 67 persons, who have been added as voters in the voter list of the year 2017 for Bikram Vyapar Mandal Election cannot be made voters as the procedure required in law has not been followed. As a consequence there of, the elections are to be held on the basis of the list which was forwarded by the petitioner to the respondent no 4, copy of which is at Annexure-3 to the writ petition. The procedure of filling of nomination paper onwards shall be completed expeditiously by the State Election Authority, in accordance with law, on the basis of the aforesaid voter list.

2. उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विक्रम व्यापार मंडल के मतदाता सूची में जोड़े गये 67 व्यक्तियों के नाम को विलोपित किया जाता है एवं वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), विक्रम को समर्पित मतदाता सूची, जो उक्त याचिका का अनुलग्नक-3 है, को विक्रम व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० के प्रबंधकारिणी समिति के चुनाव हेतु मान्यता देते हुए चुनाव कार्यक्रम निम्न प्रकार नियत किया जाता है:-

(ii)	अतिरिक्त नामांकन की तिथि एवं समय	07.11.2017 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	08.11.2017 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं समय	09.11.2017 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	17.11.2017 (शुक्रवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक

(vi)	मतगणना	17.11.2017 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
------	--------	---

3. पूर्व कार्यक्रम के अनुसार जिन व्यक्तियों द्वारा नामांकन दायर किया गया है और उनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में भी है, तो वैसे व्यक्तियों को अलग से नामांकन दायर करने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा दायर नामांकन को मान्य किया जायेगा, यदि वे अन्यथा अयोग्य नहीं हो। जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया गया है और यदि उनके द्वारा पूर्व कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दायर किया गया है, तो उसे रद्द समझा जायेगा।

4. निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-5 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के हस्तपुस्तिका प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1075-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>